

### ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

Registered Office : Industrial Area, Atlas Road, Sonepat-131 001, (Haryana) India.

Corporate Identity Number L35923HR1950PLC001614

26th May, 2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Symbol: ATLASCYCLE

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001

Scrip Code: 505029

Subject: Newspaper Publication of Financial Results

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper publication dated 25<sup>th</sup> May, 2025 in Financial Express and Jansatta pertaining to the Audited Financial Results of the Company for the period ended 31<sup>st</sup> March, 2025.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

For Atlas Cycles (Haryana) Limited

Rashpal Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

Website: www.atlasbicycles.com; E-mail: companysecretary@atlascycles.co.in LEADING PRODUCERS & EXPORTERS OF QUALITY BICYCLES

**FE SUNDAY** 

Date: 24.05.2025

Place: Haryana

INDO COTSPIN LIMITED

Reg. Off: Regd. Office: 78 K.M. MILE STONE ,NH-44, G.T. ROAD , VILLAGE: JHATTIPUR OPP. ICD-JHATTIPUR . PANIPAT-132103 HARYANA (INDIA) CIN: L17111HR1995PLC032541 | EMAIL ID: info@indocotspin.com | 9896034879 Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 31st March 2025

SI. No.	Particulars	Current/ Quarter Year ending	Year ended figures	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31/03/2025	31/03/2025	31/03/2024
1.	Total Income from Operations	634.11	2528.42	1663.48
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.85	56.08	6.32
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.85	56.08	6.32
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.85)	40.05	6.64
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0	0	0
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10- each)	714.08	714.08	420.05
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(0:85)	40.05	6.64
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	:0	0.58	0

The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindla.com) and the company's website (www.indocotspin.com)

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 24th May 2025



For and on behalf of For Indo Cotspin Limited Bal Kishan Aggarwal( M.D) DIN:00456219

(Re in lakhe)

**GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED** APPENDIX IV (See Rule 8(1))
POSSESSION NOTICE (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Ltd.)

Registered Office:- 6th floor , B- Building ,Ganga Trueno business
park, Lohegaon, Pune -411014. GRIHUM (For Immovable

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Grihum Housing Finance Limited (formerly known as Poonawalla Housing Finance imited as the name Poonawalla Housing Finance Limited changed to Grihum Housing Finance Limited with effect from 17 Nov 2023 (Previously known as Magma Housing Finance Limited and originally incorporated with name of GE Money Housing Finance Public Unlimited Company herein after referred as Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice below dated calling upon the below Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on the dates mentioned herein below

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of secured Creditor the amount and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details of Property taken in **possession** are berein be

of se	ection 13 of the	ne Act, in respect of time available, to redeem the secured a	ssets. Details	of Property taken	in <b>possession</b> are herein below.
Sr.	Name of	Description of Property	Possession		Amount in Demand Notice (Rs.)
1.	ARJUN SINGH, NIRAJ KUMARI	All that piece and parcel of the residential property house no. 105/2, area measuring 30 sq. Yds., comprising khasra no1018min, situated in the Village Arthala, In The Abadi Of Balaji Vihar, Pargana Loni Tehsil And District Ghaziabad, U.P., (hereinafter called the property) "boundaries of land/flat/plot as under: East-plot no. 104, West-plot no. 106 North-plot no. 57, South-gali 10 ft. Wide	20/05/2025	Demand Notice 10/03/2025	Loan No. HF0399H20100433 Rs. 691010/- (Rupees Six Lakh Ninety One Thousand Ten Only) payable as on 10/03/2025 along with interest @ 9.72 p.a. till the realization
2.	MANOJ KUMAR, PINKI	All that piece and parcel of the residential vacant plot, area measuring 65 sq. Yds., 54.34 sq. Mtrs., out of khata no. 00163 in khasra no. 835, situated in the Village Jafrabad Ganoli, Pargana & Tehsil Loni, District Ghaziabad, U.P. (hereinafter called the said property). Boundaries: as per sale deed dated 29.11.2022. East: property of ajab singh. West: property of manoj. North: property of other., South: rasta 10 ft., wide. Admeasuring area: 65 sq. Yds.		10/03/2025	Loan No. LAP039920000005041708 Rs. 154217/- (Rupees One Lakh Fifty Four Thousand Two Hundred Seventeen Only) payable as on 10/03/2025 along with interest @ 18.35 p.a. till the realization. Loan No. HL00399200000005033607 Rs.670415/- (Rupees Six Lakh Seventy Thousand Four Hundred Fifteen Only) payable as on 10/03/2025 along with interest @ 12.35 p.a. till the realization.
3.	MAIKAL, CHARLI, ROJAMERI SATYAN	All that piece & parcel of the freehold residential ground floor (back side), admeasuring 400 sq. Ft. Of plot bearing noa-387, area measuring 102.77 sq. Yds Bearing khasra no1375, situated at block-A. New panchwati colony in the area of Villlage Dunda Hera Pargana Loni, Tehsil And District Ghaziabad, U.P. Boundaries as under: East- property railway line, West-24 ft. Wide road, North- plot noA-386, South- plot noA-388	21/05/2025	10/03/2025	Loan No. HL0245H20100002 Rs.1055006/- (Rupees Ten Lakh Fifty Five Thousand Six Only) payable as on 10/03/2025 along with interest @ 9.9 p.a. till the realization.
4.	ANJANA CHADHA, ASHOK	All that piece and parcel of the flat no. 102 on second floor, super area measuring 1250 sq. Ft., "the said flat" developed/constructed upon the plot no.R-8/11, area measuring 1052.37 Sq. Yds., situated at block-8, Raj nagar, ghaziabad, tehsil and district Ghaziabad, Uttar Pradesh,; (hereinafter referred as the "said property") and which is bounded as under:- Boundaries:- East: plots, West:plot no.12, North: plot no.68, South: road 80' ft. Wide.	21/05/2025	10/03/2025	Loan No. LAP024420000005012144 Rs. 1654761/- (Rupees Sixteen Lakh Fifty Four Thousand Seven Hundred SixtyOne Only) payable as on 10/03/2025 along with interest @ 15.85 p.a. till the realization.
5.	AAKASH HATHWAN, ANCHAL HATHWAN	the said property). Boundaries. As per gift deed dated 29.12.2023. East -: house of rajveer, West -: house of dharamveer, North -: rasta 19 ft. Wide., South -: house of shripal.	21/05/2025	10/03/2025	Loan No. LAP024420000005034984 Rs. 2183513/- (Rupees Twenty One Lakh EightyThree Thousand Five Hundred Thirteen Only) payable as on 10/03/2025 along with interest @ 15.35 p.a. till the realization.
Plac	ce: Delhi		Sd/- Authoris	ed Officer	

Place: DELHI NCR & HARIDWAR

Dated: 25-05-2025

DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED Express Building, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 Tel.: +91-11-41204444.

Grihum Housing Finance Limited, (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

Fax: +91-1141204000, Email: rahul.gupta@dmihousinglinance.in www.dmihousinglinance.in E - AUCTION SALE NOTICE (under SARFAESI Act) SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

-Auction Sale notice for Sale of Immovable Secured Assets under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular, by the Authorized Officer, as mentioned below

that the PHYSICAL POSSESSION of the under mentioned properties mortgaged to DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED (Secured Creditor) had already been taken over under provisions of section 13 (4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Whereas the Secured Creditor acting through its Authorized Officer, in exercise of its powers under Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI), will put the below mentioned property to E-Auction for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and costs etc. The properties are being

sold on "AS IS WHERE IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities. The under-mentioned properties will be sold by way of "Online E-Auction through website https://www.bankeauctions.com Inspection Date & Time: 07/06/2025 at 11:00 AM to 03:00 PM Date & Time of e-Auction: 16/06/2025 at 11:00 AM to 01:00 PM Last Date of submission of Bid/EMD: 10/06/2025 at 04:00 PM

Name of	Outstanding Assessed	Details of Secured Assets	Rs.		
Borrower/Guarantor	Outstanding Amount	Deraits of Secrited Assets	Reserve Price	EMD 10%	
Shalini W/o Sahil Sahil S/o Sanjay Neha D/o Sanjay (Co- Borrower)	In Loan Account No. HFC0020697068 and vide Application No GG1236302 Rs. 23,66,093/- (Rupees Twenty Three Lacs Sixty Six Thousand and Ninety Three Only) as on 19-Apr-24	"Build Up Residential Second Floor (RHS Without Roof Right), Plot No. 38-A, Khasra No. 80/1, Gali No. 10, Mohan Garden Pratap Enclave, Village Hastsal, Utlam Nagar, Near Metro Gagr Sweet, Metro Pillar No. 745, West Delhi, New Delhi 110059"  Physical Possession Date: 10.03.2025	19,88,280/-	1,98,828/-	
Arjun Lal (being Deceased) Through:-it's Legal Represetative/ Legal Heir	In Loan Account No. HFC0000234865 and vide Application No. GG808933 Rs. 23,02,849/- (Rupees twenty- three takh two thousand eight hundred and forty-nine only) as on 18th Dec 2023	"Awasiya Flat No. Ug 01, L.I.G., Upper Ground Floor, Right Hand Side, Awasiya Plot No. 9, Situated At Khasra No. 1302, Awasiya Colony, P.M. Vihar, Hadbast Gram, Loni (out Of Chakbandi), Pargana & Tehsil Loni, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102" Physical Possession Date: 14.11.2024	4,50,000/-	45,000/-	
Sandeep Kumar S/e In Loan Account No. HFC0001707518 *F Surendra Pal and vide Application No. GG931284 Si Soniya W/o Sandeep Kumar (Co-Borrower) Rs. 6,34,937/- (Rupees Six Lacs Gi Thirty Four Thousand Nine Hundred H;		"Plot No. 189, Block 2, Khasra No. 341, Situated At Shree Ved City, Village Ahamadpur Grant Pargana Jwalapur, Tehsil and Distt, Haridwar, Ultarakhand 248140" Physical Possession Date: 03.02.2025	13,32,000/-	1,33,200/-	
Rakesh Kumar Rohilla S/o In Loan Account No. HFC0000005400 "Build Late. Tara Chand and vide Application No. 800784" Flat N Rakhee W/o Rakesh Kumar Rohilla (Co-Borrower) Lacs Ninety-Five Thousand Eight Hundred Thirty Only) as on 10-Jun-Situation 24		"Build Up Residential Property Being Portion/ Flat No. 06, (Ekta Avaas), (with One Car Parking At Ground Floor) Without Roof Rights, Second Floor, Out Of Khasra No. 422/3/1, Situated in the Extended Lal Dora Of Village Mundka, New Delhi 110041" Physical Possession Date: 11.02.2025	16,79,040/-	1,67,904/-	
Chiranji Lal	In Loan Account No. HFC0014519928 /HFC0016116697 and vide: Application No. GG1228253 / GG1228259; Rs. 15,83,523/- (Rupees Fifteen Lakh Eighty Three Thousand Five Hundred And Twenty- three only) as on 31st Aug 2024.	"Plot No. 17, Khasra No. 462, Situated At Mauja Rampur Musthakam, Pargana & Tehsil Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand 247667" Physical Possession Date: 88.01.2025	10,83,060/-	1,08,306/-	

To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property(ies) put on auction and claims/ rights/ dues/ effecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues/outstanding statutory dues/ taxes etc.

It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property(ies) put on auction will be permitted to interested bidders at sites as mentioned against each property description. The interested bidders shall submit their Earnest Money Deposit (EMD) details and documents through Web Portal https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com) through Login ID & Password. The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid Documents, Training/ Demonstration on Online Inter-se Bidding etc., may contact M/s. C1 India Pvt. Ltd., Plot No 68, Sector 44 Gurgaon, Haryana. Pin: 122003, e-mail ID: support@bankeauctions.com, andhra@c1india.com Contact No : 7291981124,25,26 Contact person : Mr. Dharani Krishna Contact No. +919948182222 and for any property related query may contact Authorized Officer: Mr. Rahul Gupta, Mobile No: 9211111430; e-mail ID: rahul gupta@dmihousingfinance.in during the working hours from

Monday to Friday. The EMD shall be payable through NEFT/RTGS (receipt of which shall be enclosed with the bid) latest by 10th June 2025 till 04:00 PM in the following Account with HDFC Bank Ltd. at Bank house Branch, Gurugram, Account No. 00030330020098, Name of the A/C: DMI Housing Finance Private Limited, IFSC Code: HDFC0000572 or by way of Demand Draft / Pay Order drawn in favour of 'DMI Housing Finance Private Limited' & addressed to Authorised Officer, at Express Building, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002. The assets will not be sold below the Reserve Price. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized Office

has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-Auction without assigning any reason thereof. The EMD of successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded within 7 working days from the date of auction. The EMD shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the safe price, adjusting the EMD already paid, immediately i.e. on the same day or not later than next working day and the balance 75% of the sale price within 15 days from the date of confirmation of sale or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorised Officer. FOR DETAILED TERMS & CONDITIONS PLEASE REFER OUR WEBSITE https://www.dmihousinglinance.in AND

https://www.bankeauctions.com/BEFORE/SUBMITTING/BIDS/AND/TAKING PART IN THE E-AUCTION. The Borrowers / Guarantors may treat this as notice u/r 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and are hereby given a las and final opportunity to discharge the liability in full as stated above within 15 days from the date of this notice failing which the assets will be sold as per terms and conditions mentioned above.

Date: 24th May 2025

Sd/- (Authorised Officer) **DMI Housing Finance Private Limited**  SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED REGD. OFFICE: D-188, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-I, NEW DELHI-110020 Tel.: +91-11-47334100 CIN: L74899DL1986PLC023202

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE **OUARTER & YEAR ENDED MARCH 31. 2025** 

E -Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

				Standalone	1	SECTION.
s.	402. A	Q	uarter Ende	ed	Year E	nded
No.	Particulars	31-03-2025 (Audited)	31-12-2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total revenue from operations	74,985.40	68,999.47	70,339.39	2,83,657.09	2,80,926.2
2	Net profit/(loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	10,921.71	10,005.27	11,417.96	41,754.02	39,452.43
3	Net profit/(loss) for the period/year (before Tax, after Exceptional and /or Extraordinary items)	10,921.71	10,005.27	11,417.96	41,754.02	39,452.43
4	Net profit/(loss) for the period/year after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	8,252.48	7,472.02	8,572.48	31,249.05	29,489.7
5	Total Comprehensive Income/(loss) for the period/year (Comprising Profit for the period/year after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	8,235.26	7,465.75	8,482.98	31,213.03	29,464.65
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	574.08	574.08	594.63	574.08	594.63
7	Earnings (in Rs.) Per Share (of Rs. 2/- Each					
	(Not Annualised)					
- 1	Basic	28.75	26.04	28.83	108.87	99.19
	Diluted	28.75	26.04	28.83	108.87	99.19

1. These standalone financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS"), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in compilance with the regulation 33 of the SEBI (listing obligations and Disclosure requirements) regulations 2015.

2. The above is an extract of the detailed format of period/year ended consolidated financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of these financial results are available on the stock exchange websites (URL-www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on above mentioned website of the Company. for and on behalf of the Board of Directors of

Sharda Motor Industries Limited

Date: May 24, 2025

Place: New Delhi

**Managing Director** SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

REGD. OFFICE: D-188, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-I, NEW DELHI-110020 Tel.: +91-11-47334100

CIN: L74899DL1986PLC023202 E -Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER &

YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (All amounts are in Rs. lakhs, unless otherwise stated)

		Consolidated						
s.	Bestlevier	Q	uarter Ende	Year Ended				
No.	Particulars	31-03-2025 (Audited)	31-12-2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)		
1	Total revenue from operations	74,985.40	68,999.47	70,339.39	2,83,657.09	2,80,926.24		
2	Net profit/(loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	10,920.95	10,000.97	11,417.96	41,748.96	39,452,43		
3	Net profit/(loss) for the period/year (before Tax, before share of profit/(loss) of associate and joint venture, after Exceptional and /or Extraordinary items)	10,920.95	10,000.97	11,417.96	41,748.96	39,452.43		
4	Profit/(loss) for the period/year (before tax, after share of profit/(loss) of associate & joint venture)	11,063.18	10,076.75	11,675.23	41,996.58	39,921.79		
5	Net profit/(loss) for the period/year after Tax	8,393.95	7,543.50	8,829.75	31,491.61	29,959.09		
6	Total Comprehensive Income for the period/year (Comprising Profit for the period/year after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	8,376.73	7,537.23	8,740.25	31,455.59	29,938.01		
7	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	574.08	574.08	594.63	574.08	594.63		
8	Earnings (in Rs.) Per Share (of Rs. 2/- Each (Not Annualised)							
	Basic	29.24	26.28	29.70	109.71	100.77		
	Diluted	29.24	26.28	29.70	109.71	100.77		

 These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS"), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in compliance with the regulation 33 of the SEBI (listing obligations and Disclosure requirements) regulations 2015.

2. The above is an extract of the detailed format of period/year ended consolidated financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of these financial results are available on the stock exchange websites (URL-www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on above mentioned website of the Company... for and on behalf of the Board of Directors of

Place: New Delhi Date: May 24, 2025

Sharda Motor Industries Limited SCAN for Complete Financial Results. **Managing Director** 

Dt.of Demand Notice, Date Of

Possessio

21.05.2025

19.05.2025

Amount Due As On

Date Of Demand Notice

Demand Notice 14.01.2025

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. POSSESSION NOTICE FOR Regd: Office:- Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002 IMMOVABLE PROPERTY Branch Add. No 2/c, Chetak Circle Madhuban Udaipur - 313001 · Behind Madhav Complex, Branch Öffice : Shop No 20, 1st Floor, Arihant

12001. Branch Office: 1st Floor, Ashirwad Plaza, Near Pragya School, Beawar Road, Bijainagar – 305624. Whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of The India Shelter Finance And Corporation Ltd, Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assests And Enforcement (security) Interest Act, 2002 And In Exercise Of Power Conferred Under Section 13(2) And 13(12) Read With Rule Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002, issued A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As Mentioned Hereinafter, Calling Upon The Borrower And Also The Owner Of The Property/surety To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Said Notice. Whereas The Owner Of The Property And The Other Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To The Under Noted Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Propertylies Described Herein Below In Exercise Of The Powers Conferred On Him/her Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account. Now, The Borrower In Particular And The Public In General Is Hereby Cautioned Not To Deal With The Property/ies And Any Dealing With The Property/ies Will Be Subject To The Charge Of India Shelter Finance Corporation

Description Of The Charged/

mortgaged Property (All The Part &

Parcel Of The Property Consisting Of)

All Piece And Parcel Of Residential Property

Complex Bhinder - 313603 · Opposite Bhinder Police Station. Branch Office : 1st Floor, Plot No 5/c/5, Meera Nagar, Chittorgarh, Rajasthan

Loan Account Number Mr./ Mrs. Shila Rajora W/o Manoj Singh Rao & Mr./ Mrs. Manoj Singh Rao. Reside At: Ward No. 13, Kanore, Dist. Udaipur, At: Ward No. 13, Kanore, Dist. Udaipur,
Rajasthan 313604 Also At : Patta No. 2023Samlati Farnet Gully / Late Jagdish singh Rao
Only) Due As On 10.01.2025 Together With 24/114, Ward NO. 16, Sutharo Ke Mandir 13604 Loan Account No. HL31CHLONS000005076693 MR./ MRS. CHANDI BAEE & MR./ MRS. Legal Heir Of Late Sh. Ladu lal

MR./ MRS. PREM BAI & MR./ MRS.

Sanwata, Regar Mohalla, Bolon Ka

MR./MRS. IRFAN S/O LALA SHAH.

Pichhe, Vill. & G.P.- Shambhugarh, PS &

Геh. - Asind, Dist.-Bhilwara, Raj.-311204

Chand & Mr./ Mrs. Kanchan Reside At: H

No 38, Hanutiya Mukhy Gram Th. Masuda

Dist. Ajmer, 305625 Also At: Patta No. 06

Mr./ Mrs.kanku Devi. Mr./ Mrs.trilok

LOAN ACCOUNT NO. HL30CHLONS000005028806

Chittorgarh Rajasthan-312902

KISHAN LAL REGAR Reside At: Naya

Name of the Borrower/ Guarantor

(Owner Of The Property) &

Ltd For An Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

Ke Pass, Kanod, Dist. Udaipur, Rajasthan Lal ji Rao, South – Rasta Gully. Reside At: Regar Mohalla, Narela, PO, Narela, Dist. Chittorgarh Rajasthan 312207 LOAN ACCOUNT NO. HL2000004583

House, West – Gully, North – Land of Late Mangi Interest From 11.01.2025 & Other Charges 8 Cost Till The Date Of The Payment. All Piece And Parcel Of Residential Property Demand Notice 24.04.2024
Situated At Gram and Gram Panchayat Narela, Rs. 111924/- (Rupees One Lakh Teh. Kapasan, Distt. Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 1522.50 Sq. Ft. BOUNDARY: East — Property of Mr. Naryan / Ramlal Regar, West — Only) Due As On 23.04.2024 Together With Property of Mr. Bhawan / Dola Regar, North - Interest From 24.04.2024 And Other Charges Property of Mr. Paras, South - Road. And Cost Till The Date Of The Payment. All Piece And Parcel Of Patta No. 037, Vill. Demand Notice 11.12.2024 Nayawas, G.P. Bolo Ka Sanwata, Teh. Gangrar, Rs. 1539287/- (Rupees Fifteen Distt. Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 2700 Sq. Ft. BOUNDARY: East – Mr. Moti Lal / Nanu ji Two Hundred Eighty Seven Only) Due As Or

Patta no 2023-24/114, Ward No 16, Sutharo Ke Rs. 643642/- (rupees Six Lakh

Mandir Ke Pass, Kanod, Udaipur Rajasthan Forty Three Thousand Six Hundred Forty Two

Sanwata, Tehsil-Gangrar, Dist. Chittorgarh Rajasthan 312901 Also At : Patta No. 037, Mr. Ramlal / Gopji Regar, South – Road. 10.12.2024 Together With Interest Fron 11.12.2024 And Other Charges And Cost Ti Aaraji No. 358, Village, Navawas, G.p. Bolon Ka Sanwata, Tehsil - Gangrar, Dist. The Date Of The Payment. Chittorgarh Rajasthan 312901LOAN ACCOUNT NO. LA31VLLONS000005079761 MR./ MRS. Sita Regar & MR./ MRS. Legal All Piece And Parcel Of Patta No 21 Aaraji No Demand Notice 30.10.2024 Hire Of Raju Lal Regar. Reside At: Regaro
Ka Mohalla Seerdi Semalpura, Chittorgarh,
Ka Mohalla Seerdi Semalpura, C Teh & Dist Chittorgarh Raj 312001. Also At Ratan Lal Rager. five only) due as on 28.10.2024 together with interest from 29.10.2024 and other charges Patta No 21 Aaraji No 84, Vill Seerdi G P Manpura, Teh & Dist Chittorgarh Raj 312001 and cost till the date of the payment. LOAN ACCOUNT NO. LA31CLLONS000005044568 MR./ MRS. Ful Kanwar & MR./ MRS.

All Piece And Parcel Of Residential Property
Book No. 11, Situated At Village Shiv Singh Ji
Kheda, G P Badodiya, Teh. & Distt. Chitrorgarh.
Total Area 3749 Sq. Ft. BOUNDARY: East Total Area 3749 Sq. Ft. BOUNDARY: East Total Area 3749 Sq. Ft. BOUNDARY: East Total Area 3749 Sq. Tt. BOUNDARY: East Total Area 3749 Sq. Sohan Singh Reside At: Village Shiv Singh i ka Kheda, G P Barodia, Teh. & Distt. Road, West - Govt Land, North - Road, South- Eleven Only) Due As on 17.12.2024 Together Chittorgarh, 312021 Rajasthan H/O Gajju Singh, Sohan Singh. LOAN ACCOUNT NO. CLA100000262 MR./MRS. MUMTAJ W/O LALA SHAH All That Piece And Parcel Of Property Bearing Demand Notice 28.09.2019 esidential Plot Size 1888 Sq. Feet Situated At MR./MRS. LALA SHAH s/o Aasin Ali &

Gram Gangrar, Gram Panchayat, Gangrar Teh, Gangrar Dist. Chittorgarh. Boundary: East: Shanti Lal Kanhaiya Lai Harman, West - Road, three only) due as on 30.09.2019 together Reside At: Mali Mohalla, Ward No. 1. Gangrar, Near Water Tank, Gangrar, North - Nand Lal/Bansi Lal Khatik, Chotu Shariff with interest from 01.10.2019 and other Jamil/Nuurmoh Mansuri, South - Road. charges and cost till the date of the payment LOAN ACCOUNT NO. HL1900002516 MR./ MRS. REKHA DEVI RAO W/O ARJUN LAL RAO, MR./ MRS. ARJUN LAL RAO & MR./ MRS. AAKASH RAV 311204. Total Area 978.75 Sq. Ft. Boundary:

All Piece And Parcel Of Residential Property Demand Notice 14.01.2025 20.05.2025 Patta No. 22, Gram & G.P.-Shambhugarh, P.S.- Rs. 454118/- (Rupees four lakh Symbolic Asind, Tehsil. Asind, Distt. Bhilwara, Raj.- fifty four thousand one hundred eighteen Reside At: 94, Patta No.22, Shitalamata Ke | East - Bhawan of Sikhwal Samaj, West - only) due as on 10.01.2025 together with Property of Kanheya Lal Rao, North - Property interest from 11.01.2025 and other charges of Mangilal Balai, South - Common Road. and cost till the date of the payment. All Piece And Parcel Of Residantial Property Demand Notice 16.05.2024 23.05.2025 Physical

Patta No. 06 Book No. 22, Area Admeasuring Rs. 519581/-(Rupees five lakh

Hanutiya, PS-Masuda, Distt-Ajmer, Rajasthan. Boundary: East - Common Road, West - Plot of only) due as on 13.05.2024 together with

With Interest From 18.12.2024 And Other

charges & cost till the date of the payment.

Rs. 2,71,306.- (Rupees two

Mr Ratan Lal s/o Mr Misri Lal, North - House of Mr Interest from 14.05.2024 and other charges Book No. 22, Village And Gp- Hanutiya, Ps- Ratan Lals/o Mr Misri Lal Khati, South - House of and cost till the date of the payment. Masuda, Distt-ajmer, 305625 Mr Chandra prakash s/o Mr Gyan Chand. LOAN ACCOUNT NO. HL30RNLONS000005062038 All Piece And Parcel Of Patta no 03, Book No 84, DEMAND NOTICE 12.11.2024 23.05.2025 Mr./ Mrs. Toni Bai & Mr./mrs. Shambhu VILL AND G P - PIRANA, Distt. Chittorgarh, Rs. 486148/- (Rupees Four Lakh Physical Rajasthan BOUNDARY: East - Road, West - Eighty Six Thousand OneHundred Fourty Lal Shrimali Reside At: H. No. 172, Shiv Mandir Ke Pass, Vill. Pirana, Dist. Chittorgarh, Rajasthan 312402 Also At:

Shiv Narayan ji, North - Kailash ji, South -Eight Only) DUE AS ON 09.11.2024 TOGETHER WITH INTEREST FROM Patta No. 03, Bookno. 84, Vill. And G P Pirana, P S Dungla, Dist. Chittorgarh, 10.11.2024 AND OTHER CHARGES AND Rajasthan 312402 LOAN ACCOUNT NO. HLBHCHLONS000005076948 COST TILL THEDATE OF THE PAYMENT.

Place: RAJASTHAN Date: 25.05.2025 For India Shelter Finance Corporation Ltd (Authorized Officer) For Any Query, Please Contact Mr. Vinay Rana (+91 79886 05030) & Mr. Deepak Suthar (+91 9649990190)

144.02 Sq. Yard Situated At Village and GP-

🕯 VISAKHAPATNAM METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 'e' Procurement Tender Notice

NIT No.14/2025-26/CE/SE-II/EE-V/VMRDA, Dt.21-05-2025 (EPC mode he VMRDA, Visakhapatnam invites Bids on "e" Procurement Platform on EPC Mode Name of the work: Development of 7 Nos of VMRDA MASTER PLAN ROADS PROJECT under EPC CONTRACT MODEL in Visakhapatnam Region,

The bid can be downloaded on AP e procurement portal from 21-05-2025 to 18-06-2025 up to 3.00 pm. For further details please refer to www.apeprocurement.gov.in

Sd/-Metropolitan Commissioner, VMRDA

FORM NO. 1

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE THROUGH PUBLICATION THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW (Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007 DRC. NO. 473 of 2022 NOTICE UNDER RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT 1961 **READ WITH SECTION 29 OF RDDBFI ACT 1993** 

**PUNJAB & SIND BANK APPLICANT MR. PAWAN MALIK & OTHERS DEFENDANTS** 

MR. PAWAN MALIK, S/o Late Shri Gyan Chand Malik R/o 240-B, Bhusa Mandi,

**Second Address:** Residence at Second Floor, Parasdeep Apartment, Punjabi Pura, Meerut, U.P. - 250002 MR. ANIL MALIK, S/o Late Shri Gyan Chand Malik R/o 240-B, Bhusa Mandi, Near Electronic Dharam Kanta, Kesar Gani, Meerut, U.P. -250002 Second Address: Residence at Second Floor, Parasdeep Apartment, Punjabi Pura,

Near Electronic Dharam Kanta, Kesar Ganj, Meerut, U.P. -250002

Meerut, U.P. - 250002 **DEFENDANTS/CERTIFICATE DEBOTORS** Whereas a recovery certificated passed in O.A. No. 509 of 2021 on 02.03.2022 has been issued by the Debts Recovery Tribunal, Lucknow for recovery of a sum of Rs. 31,45,834/- (Total Rs. Thirty One Lakhs Forty Five Thousand Eighty Hundred Thirty

Four Only) together with pendentillite and and future interest @ 12.00% per annum with monthly rests from the date of filling of the Original Application i.e. 26.07.2021, with costs jointly and severally till its realization from the certificate debtors no. 1 to 2. You are hereby directed to pay the sum within 15 days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts and

Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1933-As Amended). You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of assets on or before 24.07.2025.

. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 24.07.2025 at 10:30 AM. . In addition to the same aforesaid you will also be liable to pay the following:

Details of Cost: Amount Of Application Fee Rs. 34,005/-

2. Advocate Fee Rs. 40,000/-3. Misc. Expenses Rs. 5,000/-4. Clerkage 5. Publication Charges

Rs. 4,000/-Rs. 5,500/-Give under my hand and seal at Lucknow on 27.02.2025.

**RECOVERY OFFICER-I DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW** 

FORM NO. 1 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

(Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh) 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226007 | DRC No. 327/2024/RO-I NOTICE UNDER RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND

**BANKRUPTCY ACT 1993** PUNJAB NATIONAL BANK .. C.H. Bank Branch Office: Civil Line, Distt. Bulandshahar (PUNB0069000) Versus MR. RISHABH SINGH & Ors ..... Credit Debtors (Legal heir and son of Late Sushma Singh)

MR. RISHABH SINGH S/O MR. SUNIL SINGH Legal heri and Son of Late Smt. Sushma Singh R/o House No. 13, Kurena Tehsil - Siyana, Bulandshahar (U.P.) - 203001. 2ndAddress: 41, Shivpuri, Bulandshahar (U.P.)

3rd Address: Village H. No. 241, Bhadori, Ashrafpur, Tehsil Siyana, Distt. Bulandshahar (U.P.) MR. SUNIL SINGH S/o Shri Heera Singh Legal heir and Husband of Late Smt. Sushma

R/o House No. 13, Kurena Tehsil - Siyana, Bulandshahar (U.P.) - 203001. 2nd Address: 41, Shivpuri, Bulandshahar (U.P.)

MRS. ANUSUIYA SINGH D/o Shri Sunil Singh Legal heir and Daughter of Late Smt. Sushma Singh R/o House No. 13, Kurena Tehsil - Siyana, Bulandshahar (U.P.) - 203001.

2nd Address: 41, Shivpuri, Bulandshahar (U.P.) ...Certificate Debtors.

This is to notify that a sum of Rs. 3,63,65,458.11 (RUPEES THREE CRORE SIXTY THREE LACS SIXTY FIVE THOUSAND SIXTY FIVE FOUR HUNDRED FIFTY EIGHT AND PAISE ELEVEN ONLY) (Rs. 71,16,789/- in Term/Dairy Loan-1 a/c + Rs. 22,08,558/in Term Loan-2 a/c + Rs. 17,56,177/- in Term Loan-3 a/c + Rs. 1,74,01,723.24/- in Agricultural Loan a/c-1 + Rs. 10,80,214/- in Term loan-4 a/c + Rs. 71,19,393.87/- in Agricultural loan a/c-2) with pendentelite and future interest @ 11.00% per annum monthly rests from date of filing of the Original Application i.e. 25.07.2022 till the loan/total amounts are fully liquidated and jointly & severally with its cost succeeds in its realization and is hereby allowed exparte against you the addressess as per order dated 15/01/2024 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 750/2022, titled "PUNJAB NATIONAL BANK Vs. MR.

You are hereby directed to pay the aforesaid mentioned amount within 15 days of receipt of this Notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act, 1993. You are hereby ordered to declare an affidavit the particulars of assets on or before

You are hereby ordered to appear before the undersigned on 04/08/2025 at 11:00 A.M.

Details of cost: Application Fee : Rs.1,50,005/-Advocate's Fee : NIL

: NIL Clerkage : NIL Publication charges

Expenses suit filing & others : NIL Give under my hand and Seal on this 19th day of April' 2025.

RISHABH SINGH & ORS"

**Recovery Officer-I Debts Recovery Tribunal, Lucknow** 

ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED



[Corporate Identity Number (CIN): L35923HR1950PLC001614]

Regd. Off: Industrial Area, Atlas Road, Sonepat-131001 Tel.: +91- 7669636365 Website: www.atlasbicycles.com E-mail- companysecretary@atlascycles.co.in

Extracts of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter/ Year ended 31st March, 2025 **Quarter Ended** Year Ended **PARTICULARS** 

- Altiouzano	31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Un-audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	501.45	420.24	5,325.85	2,879.79	5,585.50
Net Profit / (Loss) for the period	98.39	26.82	672.43	951.26	63.68
before Tax, Exceptional and/or					
Extraordinary items#)					
Net Profit / (Loss) for the period before tax	98.39	26.82	672.43	951.26	63.68
after Exceptional and/or Extraordinary					
tems#)					
Net Profit / (Loss) for the period after tax	98.39	26.82	662.50	951.26	53.75
after Exceptional and/or Extraordinary					
tems#)					
Total Comprehensive Income for the period	98.39	26.82	662.50	951.26	53.75
Comprising Profit / (Loss) for the period					
after tax) and Other Comprehensive					
ncome (after tax)]					
Equity Share Capital	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19
Face Value Rs. 5/- each)					
Earning per Share					
Face Value of Rs. 5/- each)					
for continuing and discontinued operations) -					
Basic	1.51	0.41	10.19	14.63	0.83
Diluted	1.51	0.41	10.19	14.63	0.83
1.4					

These Audited financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred as \*Ind AS"") 34 interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with

Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The figure for the quarter and financial year ended March 31, 2025 are a balancing figure between the audited figure of the

financial year and the unaudited year to date figure up to the third quarter of the financial year ending December 31, 2024. The company operates only in one reportable segment i.e. Cycles. The aforesaid audited Financial Results of Atlas Cycles (Haryana) Limited ('the Company') for the quarter ended March 31, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its respective

meetings held on May 24, 2025. Provious Quarters/Year figures have been regrouped re arranged or re-classified wherever necessary to confirm to the classification for the current quarter.



BY THE ORDER OF THE BOARD For ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

> Chander Mohan Dhall Whole Time Director & CFO DIN: 01398734

(₹ In Lacs)

epaper.financialexpress.com

Place: Sahibabad

Date: 24.05.2025

New Delhi

इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड

पंजी, कार्या. : पंजीकृत कार्यालय : 78 कि.मी. माइल स्टोन, एनएच-44, जी.टी. रोड, ग्राम : झट्टीपुर, आईसीडी-झट्टीपुर के सामने, पानीपत- 132103 हरियाणा (भारत) सीआईएन : L17111HR1995PLC032541, ई-मेल आईबी : info@indocotspin.com, 9896034879 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित पृथक वित्तीय परिणामों का विवरण

	(रु. लाख			
क्र. सं.	विवरण	चालू /तिमाही वर्ष समाप्त	वर्ष समाप्ति के आँकड़े	पूर्ववर्त्ती वर्ष में समाप्त तद्नुरूपी 3 माह
		31/03/2025	31/03/2025	31/03/2024
1.	परिचालनों से कुल आय	634.11	2528.42	1663.48
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1.85	56.08	6.32
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1.85	56.08	6.32
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(0.85)	40.05	6.64
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय ख्अविध हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट,	0:	0	.0
6.	समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक का)	714.08	714.08	420.05
7.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्त्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन—पत्र में निदर्शितानुसार आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु)—	(0.85)	40.05	6.64
8.	<ol> <li>मूलभूत :</li> <li>तरलीकृत :</li> </ol>	0	0.58	0

दिनाँक : 24-05-2025 स्थान : हरियाणा

. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश हैं। त्रैमासिक तथा वर्षाद्यतन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

(www.bseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.indocotspin.com) पर उपलब्ध है। 2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा निदेशक मंडल द्वारा 24 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया।

कृते इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड हेतू तथा उसकी ओर से हस्ता. 🗸 -बाल किशन अग्रवाल (एम.डी.) डीआईएन : 00456219

IndusInd Bank Chennal-600017, www.indusind.com
Ph; 0442834600 28346301 Fax: 04428346312 shifts wrotes: IndusInd Bank Ltd., No. 34, G.N. Chetty Road, अचल सम्पतियों के ई..निलामी हेत् निलामी नोटिस

<u>प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6),9(1)</u> के परन्तुक के साथ पठित. विस्तीय आहितवों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गंतन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अधन सम्पतियों के ई निलामी (E-Auction) हेत् निलागी नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से जधार लेने वाला और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां जो प्रतिभृत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है का भौतिक कब्जा, प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को :जैसी है,जहाँ है, जो है जैसी है और जो कुछ भी है वहां हैद्ध के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदाराँ / गांरस्टरॉ और बंश्यककर्ताओं को प्रत्याभृत— दाता इण्डसङ्ख बैंक लिए सें — प्रतिभृत लेनदार की नीचे वर्णित रूपये की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 25/04/2025 को 11 AM बजे से 2 PM बजे तक निलाम किया जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशि निस्न वर्णितानुसार होगी।

अचल सम्पति का विवरण

	.401.5	NATIONAL PROPERTY.	*	s
सम्पति का वैक कस्ता, का विवरण	ऋणधारक व सहक्रमी का विवरण	प्रत्यामूत सम्पति का विवरण	प्रतिभृति ऋण मॉन सूचना की तारीख व राशि पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 13(2)	आरक्षित गुल्य धरोहर राशि
बैक का भीतिक कब्जा है। दिगांक 20/02/2025 से	उधारकर्तां- श्री परसंश्वर साद 5/0 बंदी प्रसाद सह-उधारकर्तां - गीला चेबी Win बंदी प्रसाद Loan A/C No.RDK85200M & RDK85201M	संपंति :- बुक नम्बर 48 ओर 29, पटटा नम्बर 30 और 11, पांच- भी कताजी नागीर राजस्थान 341029, क्षेत्रफत , 5335 वर्ग फुट का सेत्रफत , वना हुआ 4026 वर्ग फुट का रुवापित (जंसी है जहां है,जो है जैसी है और मुख्य भी है वहां है) के आधार पर	दिनांक 12/01/2022 को राशि: 54,20,180/- (शीपन लाख बीस हज़ार एक सो अरसी क्याये मात्र + भविष्य का ब्याज, लानत, खर्में, प्रभार इत्यादि	आरक्षित मृत्य _ ₹ 48,54,853/- धरोहर राशि ₹ 4,85,486/-

<u>निवस एवं शर्ते:-- ()</u> बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्ते सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पानी mpa.//www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी hips://www.baskcnictions.com पर उपलब्ध हैं। (2) निविदा दस्ताकेन जमा करने के साथ-साध बोलीदाला को आरक्षित मृत्य की 10% राशि भी जमा करनी होगी। उस बेंक ने आरक्षित मृत्य और उल्लिखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) तथ कर दी है, इसे केवल आईएमपीएस:आरटीजीएस:एनईएफटी और किमान्त बालट (D.D.) के माध्यम से 'होमज़ ईएमआई पुलिग ए.सी. (सीएफडी)' खाता संख्या 00073564611059, आईएफएससी: बाई एनडीबी0000007 के पक्ष में 09.062025. - दोपल्प 4 बजे तक जमा किया जाएगा। और शाक्षा का पता नंबर्श 3, विलेज रोट, पुंगमक्कम, जेरई-6000341 (3) सफल बोली लगाने वालों को बिक्री मुल्प का 25% भूगतान और जमा करना होगा (बोली के खप्प महले से भूगतान की गई 10% राशि कमा पानी खरीदार को ई-मीलामी की तारीख पर बिक्री की पुष्टि पर शेष 15% का भुगतान करना होगा। या अगले कार्य दिवस की समाप्ति से बाद में नहीं। इसके बाद बिकी मृत्य की 75% जी शेष राशि बिकी पृष्टिकरण पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम के अनुसार माना गया है। (4) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्तीकार या अस्तीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्परितःस्परित करने का पूर्ण अधिकार है। (5) इंब्रुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी । इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, लीसरी मंगिल, सेक्टर 44, गुड्गांव, 122003 हरियाणा। सहायता नंबर: 7291981124.25,26. और संपर्क श्री नियतेश: 7080804466 सहायता ई-मेल आईडी: seppon@bankeaucsioas.com से किसी भी प्रत्र के लिए संपर्क कर सकते हैं। और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए बैंक अधिकारी Lokesh Kumar- 9672444456. से संपर्क कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: इंडसइंड बैंक लिमिटेड स्थान :- Jaipur

## जिल्हें कार्योगतः ३४०१, प्रमणन विभवेतवा लेश (प्रावधी), पूर्व - ४११००१ ज्यानिक प्रमणन - प्रायम्भ विभवेतवा लेश (प्रावधी), पूर्व - ४११००१ ज्यानिक प्रमणन - प्रायम्भ विभवेतवा केश विभवेतवा विभवेत्व विभवेतवा केश विभवेतवा विभवेतवा केश (प्रावधी), पूर्व - ४११००१ विभवेतवा केश (प्रावधी), पूर्व - ४१९०० विभवेतवा केश (प्रावधी), पूर्व - ४१००० विभवेतवा केश (प्रावधी), प्रावधी केश (प्रावधी), प्रावध मांग सुवना का प्रकाशन

वित्तीय समस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना

एतदवारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित ऋणी/जमानतदारों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई निम्नलिखित ऋण सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक की है और उक्त सुविधाओं को बैंक द्वारा गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकी सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत डाक के माध्यम से उनके ऑतिम ज्ञात पतें पर उन्हें नोटिस जारी किये गये. थे और इस तरह उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से

नोटिस की एवजी सेवा के लिये कदम उठायें जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदारों, सह कर्जदारों और या उनसे गांस्टर ( जहां भी लागु हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करें, ऐसा न करने पर विक्तिय संपतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन

अधिनियम 2002 के प्राक्यान के अनुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा उ उपधारा (13) के प्राक्यान की और आकर्षित किया जाता है, कि कर्जदार बिकी के माध्यम से प्रतिभूत सम्पत्ति की या अन्याथा बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने के हकदार नहीं है।				
ऋण खाता सं, ऋण राशि, कर्जदार/सहकर्जदार/जमानती का नाम/मांग सूचना की तिथि/बकासा ग्रांशि	स्मपरित / प्रतिभूत आस्ति का विवरण			
ऋण समझोता संख्याः RJK05039M एन०फी०२० दिनाक- 06/11/2021	पटटा न0 115, 116, गांव— देवकुई, ग्राम पंचायत कोलाना, तहसील लाडपुरा, कोटा, राजस्थान 325003			

में स्थित भूमि एवं भवन का समस्त भाग, 1800

पटटा न0 115, क्षेत्रफल 900 वर्गफिट जिसके उत्तर

में- आम रास्ता, दक्षिण में- देवकिशन का घर, पूर्व

में- छित्तर का घर, पश्चिम में- राधा किशन का

और पटटा न0 116, क्षेत्रफल 900 वर्गफिट जिसके

उत्तर में-- हिरालाल का बाडा ओर आम रास्ता, दक्षिण

में– रामचन्द्र बेरवा का घर, पूर्व में– बाबू बेरवा का

धर, पश्चिम में- स्वयं का बाडा, उक्त स्थल पर

निर्मित भवन सहित फर्नीचर जुडनार और

एडविक कैपिटल लिभिटेड सीआईएन : L65100DL1985PLC022505 पंजीकृत कार्यालय : जी-3, 34/1 विकास हाउस पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026 दूरभाष सं: 9289119981, ईमेल : advikcapital@gmail.com, वेबसाइट : www.advikcapital.com 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित एवं पथक वित्तीय परिणामों का विवरण

समेकित आँकड़े

अलेखापरीक्षित

1,771.92

698.75

1,073.19

1,073.19

338.45

734.74

734.74

734.74

4,793.12

0.15

0.15

कंपनी के समेकित वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133, जो वहाँ उसके अंतर्गत विरचित प्रासंगिक नियमावली के साथ पठित है, के अंतर्गत निर्धारित आईएनडी एएस के अंतर्गत

. दिनाँक 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय परिणामों की पुनरीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा 23 मई 2025 को की गयी है तथा इसके उपरांत निदेशक मंडल द्वारा 23 मई 2025

समाप्त वर्ष

31-मार्च-25

लेखापरीक्षित

2,929.99

1,861.30

1,068.69

1,068.69

245.3€

823.33

823.33

830.03

5,101.83

0.17

0.17

6,70

समाप्त वर्ष

लेखापरीक्षित

2,145.54

1,247.28

898.26

898.26

262.63

635.63

635.63

(77.74)

557.89

3,170.52

0.18

0.18

समाप्त तीन माह

31-मार्च-25 31-मार्च-24 31-दिसं-24

लेखापरीक्षित

362.70

344.28

18.42

18.42

112.60

(94.18)

(94.18)

(77.74)

(171.92)

3,170.52

(0.05)

(0.05)

लेखापरीक्षित

215.04

522.13

(307.09)

(307.09)

(184.86)

(122.23)

(122.23)

(115.53)

6,085.20

(0.02)

(0.02)

तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनूसार तैयार किया गया है।

6.70

वर्गफिट क्षेत्र सीमाएं निम्नानुसार है:

साज-सामान आदि।

ऋण राशिः 16,20,000/-मांग सूचना की तिथि: 06/05/2025 यकाया राशिः 27,73,527.68/- तिथि 05/05/2025 तक उस पर और ब्याज के साथ। कर्जदार: जितेन्द्र, वाया रामदेव गोछर, गांव- देवकुइ, लाडपुरा, केवल नगर, कोटा, राजस्थान 325003

इस पर मी:-जितेन्द्र, वाया रामदेव गोछर, पटटा न0 115, 116, गांव- देवकुइ, ग्राम पंचायत कोलाना, तहसील लाडपुरा, कोटा, राजस्थान 325003 सहकर्जदार 1: सुनीता वाया सुरज, गांव- देवकुइ.

लाडपुरा, केवल नगर, कोटा, राजस्थान ३२५००३ सहकर्जनार 2 अनुराधा वाया रामचन्द्र, गांव--देवकुइ लाडपुरा केवल नगर कोटा राजस्थान सहकर्जदार 3: स्रजमल वाया रामदेव गोघर, गांव-

विवरण

देवकुइ, लाइपुरा, केवल नगर, कोटा, राजस्थान 325003 दिनांक:

क्र.सं.

2

5

कुल आय

कुल व्यय

कुल कर व्यय

मूलभूत

स्थान : नई दिल्ली

दिनॉक : 25-05-2025

टिप्पणियाँ

तरलीकृत

आपवादिक मदों तथा कर से पूर्व लाभ

परिचालनरत् परिचालनों से निवल लाभ / (हानि)

कुल व्यापक आय (लाभ / (हानि) तथा अवधि हेतु अन्य

प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 1 प्रत्येक का अंकित मूल्य)

कर पूर्व लाभ / (हानि)

अवधि हेतु लाभ / (हानि)

व्यापक आय से समाविष्ट)

सम मूल्य रु. 1 प्रत्येक के समता अंश

को आयोजित बैठक में इनका अनुमोदन किया गया।

कुल अन्य व्यापक आय

प्राधिकृत अधिकारी इंडसइंड बैंक लिमिटेड ख्यान :- Jaiour

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड (निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : L35923HR1950PLC001614) पंजीकृत कार्यालय : औद्योगिक क्षेत्र, एटलस रोड, सोनीपत- 131001 दुरभाष : 91- 7669636365, वेबसाइट : www.atlasbicycles.com. इमेल : companysecretary@atlascycles.co.in

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (पृथक तथा संयुक्त) का साराँरा

		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष		
विवश्ण	31,03,2025 (Auxyllian)	31.12.2024 (elemetrica)	31.03.2024 (Aurolitics)	31.03.2025 (Reviting	31.03.2024 (Hersellin)
परिचालनों से कुल आय	501.45	420.24	5,325.85	2,879.79	5,585.50
अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	98.39	26.82	672.43	951.26	63.68
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मर्वो के उपरांत #)	98.39	26.82	672.43	951.26	63.68
कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदाँ के उपरांत #)	98.39	26.82	662.50	951.26	53.75
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाग/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	98.39	26.82	662.50	951.26	53.75
समता अंश पूंजी (रु. 5/— प्रत्येक का अंकित मूल्य)	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19
आय प्रति अंश (रु. 5/– प्रत्येक का अंकित मूल्य) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों के लिये)–	0.00	Vinga Live	1,12000	15/762	
मूलभूत	1.51	0.41	10.19	14.63	0.83
तरलीकृत	1.51	0.41	10.19	14.63	0.83

यह लेखापरीक्षित वितीय परिणाम, समय-समय पर संशोधितानुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली के साथ परित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस" संदर्गित) 34 अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदनीकरण के अनुसार तैयार किये गये है।

दिनोंक 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और विसीय वर्ष के ऑकड़े, विसीय वर्ष के लेखापरीक्षित ऑकड़ों और 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष की तृतीय विमाही तक के अलेखापरीक्षित वर्षातन के आँकडों के मध्य एक संतुलनकारी आँकडा है। कंपनी केवल एक प्रतिवेदनयोग्य खण्डवार अर्थात साइकल्स में परिवालन करती है। एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त लेखापरीक्षित वितीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा निदेशक मंडल ने 24 गई 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया है।

पुर्ववर्ती तिमाहियों / वर्ष के ऑकडों को वर्तमान तिमाही के वर्गीकरण के अनुरूप पुष्ट करने के लिए जहाँ-जहाँ अनिवार्य समझा गया, बहाँ–वहाँ पुनर्समृहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

स्थान ः साहिबाबाद दिनाँक : 24-05-2025

बोर्ड के आदेशानुसार कृते एटलस साङ्कल्स (हरियाणा) लिमिटेड हस्ता./-चंदर मोहन दल पूर्णकालिक निदेशक तथा सीएफओ डीआईएन : 01398734

### वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिट्ड पंजीकृत कार्यालय : 45, ग्राउंड फ्लोर, ओर्खलो इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-।।।, नई दिल्ली-- 110020

सीआईएन : L31900DL2009PLC195174, वेबसाइट : www.wonderelectricals.com, बूरमाप सं: 011— 88058952

		20	
31 मार्च 2025 को सम	ाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखा	परीक्षित वित्तीय परिणामों का साराँश	

亷	2150		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
सं	विवरण	लेखापरीक्षित 31—मार्च—25	अलेखापरीवित 31—दिसं.—24	लेखापरीक्षित 31—मार्च—24	लेखापरीक्षित 31—मार्च–25	लेखापरीक्षित 31—मार्च–24
1	परिचालनों से कुल आय	31202.87	22152.85	25929.41	89450.12	56999.02
2	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम (आपवादिक तथा असाधारण मदौं से पूर्व)	1386.01	793.07	957,12	2530.17	1452,40
3	कर पूर्व अवधि डेतु निवल लाम (आपवादिक तथा असाधारण मदों के उपरांत)	1386.01	793.07	957.12	2530.17	1452.40
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाग (आपवादिक तथा असाधारण मदौं के उपरांत)	918.56	509.48	653.08	1657.61	1015,59
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से समाविष्ट)	918.56	509.48	653.08	1657.61	1015.59
6	समता अंश पूंजी (रु. 1 प्रत्येक का अंकित मूल्य) अधिमापन अंश पूंजी (असूचीबद्ध)	1340.08	1340.08	1340.08	1340.08 1992.67	1340.08 1992.67
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्वक्तीं वर्ष कं लेखापरीक्षित पुलन—पत्र में निदर्शितानुसार	:0001000			6740.51	5454.26
8	अथ प्रति अंश (रु. 10/- प्रति अंश का अंकित मूल्य) (अवार्षिकीकृत)					
	मूलभूत आय प्रति अंश (रुपये में)	0.69	0.38	7,31	1.24	7.58
	तरलीकृत आय प्रति अंश (रूपये में)	0.69	0.38	7.31	1.24	7.58

 उपरोक्त सारौश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताये) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारीश हैं। वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट (www.wonderelectricals.com) पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों अर्थात् (www.bseindin.com एवं www.nseindia.com) पर चपलव्य है। . उपरोक्त परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी और तदुपरांत निदेशक मंडल ने 24 मई 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया। दिनोंक 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष का लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सौंविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार बनाकर तैयार किया गया है।

 पूर्ववर्त्ती अवधियों के ऑकडों को जहाँ अनिवार्य समझा गया है वहाँ उन्हें पुनर्समृहित /पुनर्व्ववस्थित किया गया है।



स्थान : नई विल्ली दिनोंक : 24/05/2025



बोर्ड की ओर से कृते वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड योगेश साहनी प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00811667

# "IMPORTANT"

whatsoever.

पृथक ऑकड़े

अलेखापरीक्षित

713.40

748.37

(34.97)

(34.97)

68,73

(103.70)

(103.70)

(103.70)

4,793.12

(0.02)

(0.02)

समाप्त तीन माह

लेखापरीक्षित

401.62

326.53

75.09

75.09

32.67

42.42

42.42

(77.49)

(35.07)

3,170.52

(0.01)

(0.01)

31-मार्च-24 31-मार्च-25 31-मार्च-24 31-दिसं-24

लेखापरीक्षित

760.27

557.42

202.85

202.85

(8.87)

211,72

211,72

218.43

6,085.20

0.04

0.04

6.70

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

टैसेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेंड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः एच नं.1/61-बी विश्वास नगर, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली-110032 ईमेल आईडी: rahulmerchandising@gmail.com, वेबसाइट: www.rahulmerchandising.in सीआईएन: L74899DL1993PLC052461, फोन: 7042309128 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 47(1) (बी)) (ईपीएस को छोड़कर लाख रुपये में)

समाप्त तिमही समाप्त वर्ष विवरणों 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2024 31-03-2025 31.03.2024 (लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 5.00 परिचालन से कुल आय 332.69 0.00 (1.28)335.44 अन्य आय 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक 4.66 (4.29)(0.38)(3.70)(2.77)और /या असाधारण मदों के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (अपवादात्मक और / या 4.66 (4.29)(0.38)(3.70)(2.77) असाधारण मदों के बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मदों के बाद) 4.66 (4.29)(0.38)(3.70)(2.77)अवधि के लिए कुल व्यापक आय [कर के बाद की अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] 4.66 (4.29)(0.38)(3.70)इक्विटी शेयर पूंजी 351.23 351.23 351.23 351.23 351.23 पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दिखाए गए अनुसार रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर) (373.05)(376,75) जारी और बंद परिचालन के लिए प्रति शेयर आय (10/- रुपये प्रत्येक) 0.13 (0.12)(0.01)(0.11)(0.08)2.डाइलूटड 0.13 (0.12)(0.01)(0.11)(0.08)

उपरोक्त विवरण सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में

दाखिल तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.rahulmerchandising.in पर उपलब्ध है।

दिनांक : 23.05.2025

पदाः स्कान के निकट बाजर नेत. विजय नगर -309024

स्थान : दिल्ली

कृते टैसेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में राहुल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (सोमाली त्रिवेदी) (अध्यक्षे और निदेशक) डीआईएन : 10761851

अचल सम्पत्ति के लिए

allndaSheller इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पुलिस स्टेशन के पीठे **मामा कार्यालय** : प्रथम तान, प्लॉट नंबर ६/सी/६, मीरा नगर, किलीडगढ़, रूपमधान –312 061, बाला कार्यालय : प्रथम तान, आवीर्यन प्रकास

अवकि, अधोहरतासरी ने **इंकिया शेल्टर फाइनैंस एँड कॉर्परिशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, विसीय आस्तियों का प्रतिनृतिकरण एवं नरनिर्माण और (प्रतिभूति) क्षित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति क्षित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 के नियम 3 के साथ परित धारा (5(2) एवं 15(12) के अधीन प्रदल्त कवितयों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी। जिसमें कर्जदार और सम्पति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राजि का भुमतान उक्त सूधना की तिथि से 60 दिन के मीतर करने की मांग की गई की जबकि सम्पति स्थामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदहारा अधोवर्णित कर्णादारी तथा सर्वसाधारण को सुवना दी जाती है कि अधीहरलक्षरी ने यहां मीचे वर्णित सम्पत्ति/वाँ का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के बाद्य पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जवार को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति / यो के लंबच ने संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति / यो के सबच ने कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर व्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जबार/गारंटर (सम्बद्धि स्वामी) प्रवास्ति / बंधक सन्पत्ति (सन्पत्ति के सनी बी / बीमती सीला राजीश फली मनोज सिंह राव एवं सम्पत्ति के सभी वंश एवं खंड : जारारीय शंपी यहा संख्या मांग सूचना तिथि = 14-01-2025 बी/बीमारी मनोज सिंह साब, निवासी . वार्स मध्य 2022-24/ 114 वार्स संख्या 18, मुध्यरी के बंदिर के पास, के 8,43,842/- (रुपये छह लाख 13. कानींच, जिल्हा जदमपुर, राजल्यान-313604, बालेंड, चदवपुर राजल्यन 313604 सूज क्षेत्रपल 380 वर्ग नेतालींस हजार छह सी स्थालीस अन्य पता | घटरा नंबर 2023-24/114 वार्ड नंबर और, चीमा | पूर्व - सामरावर्ध करनेट वर्सी / स्वर्गीय मात्र) 10-01-2026 तक देख 11-01-2026 व 16. सुकारों के मौरेर के फल, कनीय, जिला जबपपुर, जगदीह सिंह रच का सकल, परिवम-गली, उत्तर-स्वर्गीय व्याज और मुख्यान की दिख्य तक अन्य सुरूत और मांगी जान भी राव की अमीन, राखिन - राख्य गर्जी। guttern-313604 अप बारत संख्या HL31CHLONS000005076693 बी/बीमती चारी बाई एवं बी/बीमती स्व श्री आहू। सन्पत्ति के समी अंक एवं खंब : शाम एवं शाम पंचायता नींग सूबना तिथि : 24-04-2024 | 21-05-202 **वाल के कार्नी वास्ति, निवादी :** ऐगर मोहल्ला, नरेला, नरेला, तह कपासम, जिला, विसीचगढ़, राजस्थान में के 1,11,924 /- (श्यये एक त्यास **5 सांबोधिक** 

पीलो नरेला, जिला भिलीवयद राजस्थान-312207 ऋग बाता संख्या HL2000004583

रियत आवासीय संपत्ति. 1622.60 वर्ग फीट बेजफल। ग्यारह राजर नी नी चीबीन मात्र) सीमा: पूर्व - श्री मारावण / रामलाल रेसर की संपत्ति, 25-04-2024 तक देय 24-04-2024 से ब्याण और परिश्रम — बी भवन 🗸 जोला रेगर की रामसि, तत्तर — धुमतान वर्र तिथि तक अन्य शुक्क और लागत सहित भी पारस की संपत्ति दक्षिण - रोता। बी/बीमरी प्रेम बाई एवं बी/बीमरी किरान लाल सम्बद्धि के सभी क्षेत्र एवं खंड : पटटा नवर 637 ताम नागाय मांग सूचना तिथि : 11-12-2024 | 21-05-2025 रेकर, निवासी : नया सांपटा, रंगर मोहल्ला, बोली का होती, बोली का संबंदा, तहनीत संगयन विका विक्रीपुण्ड, 🕫 15.39,287/— (७४६ 🕒 सांकेरिक सावटा, तहसील गरागांड, जिला विक्रीवराद,

राजनवान, परिनास 2000 वर्ग कीट, रोमा । पूर्व – भी मोती व्याख्य जन्ताओंक छजार दो सी आराजी नंबर 358, शाम न्यवास, जी.वी. बीली क्षा जात/नानू जी गर घरियम-वी सन तात/नदवनी श्रेतर, सतानी मात्र) 10—12—2024 तक देश 11—12—2024 सायदा, ग्रहमील गगराङ, जिला मिलीडगढ़ जार-ची गमताल/गोपीजी रंगर प्रक्षिप - होड ऋण जाता संख्या LA31VLLONS000005079761

बी/अभिती केवा रेगर एवं अी/अभिती कबू जात रेगर सन्यति के सभी अंक एवं खंड : प्या संका 21 आताओ मांग सूचना तिथि : 30-10-2024 21-06-2025 के कानूनी वारिस निवासी : रेगरो का मंत्रालक सीराजी शहरता हव गांव श्रीराजी जी दी मानपुरत तह व दिख्या रू. 5,11,725/- /हपसे पांच लाखा. संमालपुर, फिलोइयद तहसील एवं जिला विक्तीवगद, विलीवयद राज 312601, सीमा: पूर्व-रोड, परिचम-रोड, म्यारह हजार साह सी पर्व्यास राजस्थान-312001 अन्य पता । पट्टा नंबर 21 आराजी तंबर 84, पाम श्रीश्री जीमी मानपुरा सहरील पूर्व विता मान) 28-10-2024 तक देव 29-10-2024 र ब्याज और गुणतान की लिकि तक अन्य शुल्क और केलीदगढ राजस्थान-31200। ऋण साता संख्य LA31CLLONS000005044568 बी/बीमती पूज कंकर एवं बी/बीमती सोहन लिंह, सम्बक्ति के सभी अंक एवं स्रोतः आवानीय वर्णान, वही नवर मांग सुखना तिथि : 23-12-2024 21-05-2025

rifer ... more that when the an mann i

निकारी : प्राम किय सिंह जो का दोवा, जीवी करोदिया, 11 मांव शिव सिंह वी छेवा वो थे क्योदिया शर्मीक और ए. 3.68.211/- (अपये सीन लखा सांकेरिक

किला विलीवगढ में रिवर है। बल क्षेत्रफल 3749 वर्ग फीट। 907 900 view CLA100000262 संबा: पूर्व – सडक, परिचम – सरकारी भूमि, उत्तर – सडक, 17–12–2024 तंत्रा वेच 18–12–2024 ते ब्राप्त और

वहसील एवं जिला चिल्लीटगढ राजस्थान-3:2001

बी/बीमती मुमताज पत्नी लाला खाइ एवं बी/बीमती। सन्पत्ति के सनी और एवं खंड : आवातीय पति सादाज मांग सूचना तिथि : 28-09-2010 | 19-05-2025 वाला **कड पुत्र आसीन अली एवं बी/बीनवी इरकरान** 1888 वर्ग कीट, रियत : ग्राम नगवाट, ताम पंचायत के 2.71,306/- (स्पर्य को लाख **मौतिक** पत्र खला साह, निवासी : मही मोहत्ता, वार्ड नंबर १, जंगतार, तहसील गंगरार, जिला किलीदवद, जीमा पूर्व इकतलार हवार तीन सी छह मात्र) - मार्ति जाल कन्हेगा लाल हरगान, पविका – रोड, 30-09-2019 तक देप 01-10-2019 से माज और ज़तर - नंद साल / बसी. लाल खाटीक, छोटू शरीफ मुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत संप्रित

भुगताम की तिथि तक अन्य शुरुक और लागत सहित

नंगरार, विकट पानी की टंकी, मंगचर, विलॉजगड़, राजस्थान-३१३००२ ऋण चारत संख्या सा. 1900002516

जमील / नुसमीह मॅस्ट्री, पक्षिण - रोध बी/बीमती रेखा देवी राव पत्थी अर्थुन साल एवं, सन्धांत के सभी अंत एवं खंड : आवासीय सन्धांत पहुरा मीग सूचना तिथि : 14-61-2025 | 20-05-2025 बी/बीमती अर्थुन लाल एवं बी/बीमती आकास नवर 22, बाम एवं जी.पी. तानुगढ़ पीएस एवं ताहसील व. 4.54,118/- (रूपमे चार लाख सिकेविक **वर निवसी** : 94 पटटा नंबर 22. शीललामाता के पीछे, असीच, जिल्ला शीलवाडा, शजरधान— 311024 पट्टा प्रेयन इजार एक सी अजारह मात्र) वाम एवं जी.पी. शंभूगढ, पीएस एवं लक्ष्मील असीच, ब्रिवम्बन 978.75 वर्ग भीट। लीमा पूर्व में लिकवाल सम्माण 10-01-2025 तक देश 11-01-2025 तो ब्रायन और का भवन, पश्चिम में कन्द्रेया जाल राव की सम्पत्ति, उत्तर भूगतान की तिथि तक अन्य शुक्क और लागत सहित ऋग भारत संख्या HL30CHLONS000005028806

विका भीलवास राजस्थान-११1024

में मांगीलाल बलाई की सम्पत्ति, वक्षिण में आम रोड बी/बीमती कमकू देवी, बी/बीमती जिलोक कंद एवं सम्पत्ति के रूपी अंत एवं कंत : आपानीय संपत्ति पहा मीग सूचना तिथि : 16-00-2024 23-05-2025 **बी/बीमती कंदन निवासी** : गकान संख्या ७६ हनुतिया। संख्या ७६ वर्षि संख्या ७२ क्षेत्रफल १४४,७२ वर्षि सन, गांव 🕏 ५,19,58१/— (रुपये पांच लाखा 📗 **मीतिक**ः मुख्य सम्म धाना मसुदा जिला अज़मेर, 306625 जन्म और साम पंचायत-बनुतिया, साना-मनुतर, विजा-अवगेर, उन्होंस इजार पांच सौ इक्कासी पता : पहा संख्या ७६ पुरतक संख्या २२, गांव और ग्राम | गाजस्थान में स्थित हैं। सीना पूर्व - साम सहक, पश्चिम | गात्र) 13-05-2024 तक, देश 14-05-2024 त पंचापा- हजुतिया. धाण- मगुदा जिला- -- श्री रतन लात पुत्र श्री मिश्री लाल का प्लीट, जलर -- ब्याज और मुग्लान की दिवि दाव अन्य शुटक और

अजमेर, 205825 बी रतन लाल पुत्र भी मिश्री लाल खाती का मकान, दक्षिण लामत लाहित करण साहा संख्या HL30RNLONS000005062038 - भी यह प्रकाश पुत्र भी झान यद का मकान। की/श्रीमधी दोनी बाई एवं श्री/श्रीमधी संमू लाल सन्पन्ति के लगे अंश एवं खंड : पदल नेवर ०% वहीं मान सूचना विभि : 12-11-2024 23-05-202 कीमाली निवासी : मकान नंबर 172, शिव मंदिर के नंबर 84 ग्राम एवं जी पी विशाना की एस दूराला जिला उ. 4,86,145/- (रूपमे कर लाक ... 5 कीतिक कामाला (नवारा) मकरन नवर 172, होच नावर के पारा, धाम पिराना, जिला शिल्हीं हमाद, पारा, धाम पिराना, जिला शिल्हीं हमाद, पारियम — जिल नारमण जी, उत्तर — कैलाका जी, 00-11-2024 तक देश 10-11-2024 से ब्राज और त्रजस्थान-312402, अन्य पता : पट्टा नवर 03. इक्षिण - भगवतीलाल जी

पुगतान की विधि तक अन्य बूल्क और लागत सहित . बही लंबर 84, ग्राम एवं जी पी जिराना, पी एस हंगत्वा, जिला चिलीक्यद, राजस्थान-312402, ऋण काला संख्या HLBHCHLONS000005076948 स्थान : राजस्थान, तिथि : 25-05-2025 बास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कापौरेशन लिमिटेड (ब्राधिकृत अधिकारी)

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विभव रामा (+e1 79686 05030) एवं श्री वीपक सुवार (+e1 96496 90190)

मैफकॉम कैपीटल मार्किट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय:- पाँचवी मंजिल, सांची बिल्डिंग, 77, नेहरू पलेस, नई दिल्ली - 110 019 CIN: L74899DL1985PLC019749

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के कथन का सार

(रू० लाखों में)

क्रo विवरण संo	एकीकृत				
	समाप्त तिमाही			समाप्त वार्षिक	
	31.03.2025 अंकेक्षित	31.12.2024 अन—अंकेक्षित	31.03.2024 अंकेक्षित	31.03.2025 अंके <b>क्षि</b> त	31.03.2024 अंकेक्षित
अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(384.86)	(100.71)	142.42	(213.98)	863.40
कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(384.86)	(100.71)	142.42	(213.98)	863.40
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लाम/(हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(459.22)	(93.71)	117.94	(284.50)	985.80
इक्वीटी शेयर पूँजी	914.02	914.02	914.02	914.02	914.02
रिजर्व (रीवैल्यूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि अंकेक्षित तुलन पत्र में दिखाया गया	1,197.61	1,630.58	1,336.55	1,197.61	1,336.55
प्रति शेयर आय (रू० 2/ प्रति इक्वीटी शेयर) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)-					
1. मूल:	(0.84)	(0.22)	0.24	(0.52)	1.70
2. तरल:	(0.84)	(0.22)	0.24	(0.52)	1.70
			समेकित		
परिचालन से कुल आय	2,154.58	3,906.55	8,379.87	20,669.86	21,793.41
कर से पहले नेट लाभ/(हानि)	(384.27)	(95.44)	105.29	(276.25)	690.42
कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि)	(384.27)	(95.44)	87.25	(273.46)	672.38
	परिचालन से कुल आय अविध के लिए नेट लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मर्दों से पहले) कर से पहले अविध के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मर्दों के बाद) अविध के लिए कुल व्यापक आय [अविध के लाम/(हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] इक्वीटी शेयर पूँजी रिजर्व (रीवैल्यूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि अंकेक्षित तुलन पत्र में दिखाया गया प्रति शेयर आय (रू० 2/ प्रति इक्वीटी शेयर) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)- 1. मूल: 2. तरल:  परिचालन से कुल आय कर से पहले नेट लाभ/(हानि)	31.03.2025 अंकेकित  परिचालन से कुल आय 2,243.74  अवधि के लिए नेट लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले) कर से पहले अवधि के लिए नेट लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लाम/(हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] इक्वीटी शेयर पूँजी 914.02  रिजर्व (रीवैल्यूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि अंकेक्षित तुलन पत्र में दिखाया गया प्रति शेयर आय (रू० 2/ प्रति इक्वीटी शेयर) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)-  1. मूल: 2. तरल: (0.84)  परिचालन से कुल आय कर से पहले नेट लाम/(हानि) (384.27)	समाप्त तिमाही   31.03.2025   31.12.2024     अंकेक्षित   अन-अंकेक्षित     परिचालन से कुल आय   2,243.74   4,076.39     अवधि के लिए नेट लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा   (384.86)   (100.71)     असाधारण मदों से पहले   कर से पहले अवधि के लिए नेट लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा   (384.86)   (100.71)     असाधारण मदों के बाद   अवधि के लाम/(हानि) शामिल (459.22)   (93.71)     (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	समाप्त तिमाही   31.03.2025   31.12.2024   31.03.2024   4.076.39   9.070.18   4.076.39   9.070.18   4.076.39   9.070.18   4.02.20   4.0	समाप्त तिमाही   समाप्त   अंग्रेसित   अंग्र

टिप्पणीः

अवधि के लिए कुल व्यापक आय

उपरोक्त परिणामों का लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और तदपश्चात निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और साथ में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा उनकी मई 23, 2025 को आयोजित बैठक में समीक्षा की गई।

(458.63)

(88.45)

80.81

(346.77)

- यह कथन कम्पनीज अधिनियम. 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित (भारतीय लेखा मानक) नियमन, 2015 के अन्तर्गत निर्धारित लागू सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं एवं नीतियों के अनुसार तैयार किये गये।
- पिछले वर्ष के आकड़ो की पृष्टि के लिए वर्तमान अवधि के आकड़ों को जहाँ पर आवश्यक था, समुहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।
- 31मार्च, 2025 एवं 31मार्च, 20254 को समाप्त तिमाही के आकड़े जैसा कि वित्तीय परिणामों में बताये गये आकड़े, पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित परिणामों और क्रमशः 31 दिसम्बर, 2024 एवं 31 दिसम्बर, 2023) को समाप्त नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित प्रकाशित वित्तीय परिणामों के मध्य संतुलन के आकड़े है।
- (कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा प्रकटीकरण)— 31.03.2024 एवं 31.03.2025 को प्रचलित बाजार मुल्य पर स्टॉक–इन–टेड के मुल्यांकन में कमी क्रमशः रू० 88.52.091 एवं क्त० 6.33.66.586 है, जो कि उनकी पिछले वास्तविक लागत की तुलना में है, जिसके कारण वर्ष के अंत में हानि में रू० 5,45,14,495 की बढोतरी हुई है।

कृते मैफकॉम कैपीटल मार्किट्स लिमिटेड

हस्ता०/-विजय मेहत्ता निदेशक

812.82

स्थान: नई दिल्ली

लिमिटेड हस्ता /-नरेंद्र कुमार सिंघल पूर्णकालिक निदेशक

कृते एडविक कैपिटल

ऑकड़े लाख मे

समाप्त वर्ष

31-मार्च-24

लेखापरीक्षित

1,651.55

1,064.86

586.70

586.70

182.71

403.99

403.99

(77.74)

326.25

3,170.52

0.10

0.10

समाप्त वर्ष

31-मार्च-25

लेखापरीक्षित

2,365.13

1,673.72

691.40

691.40

151.64

539,77

539.77

546.47

5,101.83

0.11

0.11

6.70

डीआईएन : 10800406

तिथि: 23 मई, 2025

DIN: 00057151

epaper.jansatta.com

Chandigarh